

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS	पुस्तकों की खरीद करने हेतु सिफारिश फार्म RECOMMENDATION FORM FOR PURCHASE OF BOOKS	LI	3
--	---	-----------	----------

संदर्भ: पुस्त.२(६)/() Ref: Lib.2(6)/()	दिनांक Date
---	----------------

अनुमोदन के आधार पर निम्न विवरित/संलग्न प्रकाशन प्राप्त हुए हैं। कृपया परामर्श दें कि पुस्तकालय में इस/इन प्रकाशन(नों) को जोड़ा जाना है या नहीं। यह निवेदन है कि आपके सिफारिशों को इस/इन प्रकाशन(नों) की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह (१५) दिनों के अंदर इस/इन पुस्तक(कों) के साथ हमें भेजें, यानि दिनांक ----- तक ताकि इस मामले में हम आगे की कार्रवाई कर सकें।

The under mentioned/enclosed publication(s) has/have been received on APPROVAL BASIS. Kindly advise whether this/these publication(s) may be added to our Library or not. It is requested that your recommendations may be sent to us, along with this/these book(s) within fifteen (15) days from the date of receipt of this/these publication(s) i.e. latest by _____ to enable us to proceed further in the matter.

महत्वपूर्ण टिप्पणी: आप से निवेदन है कि इन प्रकाशन(नों) को हमारे पुस्तकालय के पुस्तक क्रय यूनिट (कमरा नं ३५३, मानकालय) को वापिस भेज दें व पुस्तक(कों) की प्राप्ति के टोकन स्वरूप इस फार्म की प्रति प्राप्त करें जिस पर अभी आप हस्ताक्षर कर रहे हैं। प्रत्याशा में आपका धन्यवाद।

IMPORTANT NOTE: You are requested to return these publication(s) to the Books Procurement Unit of our Library (Room # 353, Manakalaya) and take back duplicate copy of this form, which you are signing now, in token of having received this/these book(s). THANKING YOU IN ANTICIPATION.

क्रम सं. Sl. No.	लेखक/संपादक Author/Editor	शीर्षक/अंक Title/Edition	प्रकाशक Publisher	मूल्य Price

विभाग/अनुभाग को To Dept./Section	उप निदेशक (पुस्तकालय) Dy. Director (Library)
-------------------------------------	---

विभागीय प्रमुख का पुस्तक(कों) के खरीद हेतु सिफारिश/समर्थन
Recommendations/justifications by the Head of Department for purchase of book(s)

निम्न के लिए पुस्तक(कों) की आवश्यकता है/The book(s) is/are required for (कृपया टिक करें/please tick)			
1.	मानक निर्माण/Standards development	<input type="checkbox"/>	2. अनुसंधान एवं विकास कार्य/R&D work

कोई अन्य टिप्पणी Any other comment	विभागीय प्रमुख Departmental Head
---------------------------------------	-------------------------------------

पुस्तकालय को वापिस Back to Library
